

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/475

दिनांक - 12/12/2017

प्रेस विज्ञप्ति

कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर एनसीएल जयंत ने किया युवाओं का कौशल विकास सीएसआर के तहत आस-पास के गांवों के 45 ग्रामीण एससी/एसटी युवाओं को दिया कंप्यूटर प्रशिक्षण

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय जरूरतमंद ग्रामीणों का कौशल विकास कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। इसी क्रम में कंपनी के जयंत क्षेत्र ने अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत आस-पास के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) युवाओं को आधुनिक जीवन के अभिन्न अंग एवं रोजगार पाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक कंप्यूटर संचालन का प्रशिक्षण दिया है।

सोमवार को कंप्यूटर ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थी युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिए गए। समापन समारोह का आयोजन जयंत क्षेत्र के अधिकारी मनोरंजन गृह में किया गया, जिसमें जयंत क्षेत्र की समर्पिता महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती राधा चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है और इसे सीखना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से अपने कैरियर के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान भी किया।

तीन महीने के कंप्यूटर ट्रेनिंग कार्यक्रम में युवाओं को एमएस ऑफिस, टैली जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही, इंटरनेट चलाने और कंप्यूटर हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग दी गई। जयंत क्षेत्र की सीएसआर टीम ने प्रशिक्षणार्थी युवाओं को आगे भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कार्यक्रम से लाभान्वित युवाओं ने कंप्यूटर ट्रेनिंग देने हेतु जयंत क्षेत्र का आभार जताते हुए आगे भी इसी प्रकार के और भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।

जनसंपर्क अधिकारी